

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 23 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, उपवाक्य (क) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)
‘(क) किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई ऐसा विद्युत चालित वाहन, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है ; या स्पष्टीकरण. - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 87 के अधीन आता है, और जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है।’।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं.354/47/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 4/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, सा.का.नि 257 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July 2019

No. 13/2019- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 542(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 23, in the entries in column (3), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -

(3)
‘(aa) to a local authority, an Electrically operated vehicle meant to carry more than twelve passengers; or <i>Explanation.</i> - For the purposes of this entry, “Electrically operated vehicle” means vehicle falling under Chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) which is run solely on electrical energy derived from an external source or from one or more electrical batteries fitted to such road vehicle.’.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st of August, 2019.

[F. No.354/47/2018 -TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 4/2019 – Integrated Tax (Rate), dated the 29th March, 2019 vide number G.S.R. 257(E), dated the 29th March, 2019.